

मि.सं. 36001/13/2017- सामान्य प्रशासन

भारत सरकार/ Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage

एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)121001-/ N.H.-4, Faridabad -121001

Dated/दिनांक: 20 मई, 2019


परिपत्र

विषय: 21 मई 2019 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के संबंध में ।

गृह मंत्रालय के दिनांक 1 मई, 2019 के पत्र संख्या 19/09/2019-Public के अनुक्रम में दिनांक 21 मई, 2019 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाना है । आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य आम आदमी के कष्टों को उजागर करके और यह बताकर कि आतंकवाद तथा हिंसा का मार्ग राष्ट्रीय हित के प्रति किस प्रकार हानिकारक है, युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से दूर रखना है ।

2 इस निदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21 मई 2019 मंगलवार को प्रातः 11.00 बजे मुख्यालय के सभागार के बाहर वनस्पति संरक्षण सलाहकार महोदय द्वारा या उनकी अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण निदेशालय मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई जाएगी । अतः इस निदेशालय मुख्यालय, सीआईबी एण्ड आरसी, सीआईएल में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ लेने के लिए निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें ।

संलग्न: यथोक्त ।



(मोहन लाल मीना)

अवर सचिव (मुख्यालय)

वितरण:- निदेशालय मुख्यालय, सीआईबी एण्ड आरसी, सीआईएल के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे शपथ ग्रहण समारोह के लिए निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाएं ।

प्रतिलिपि : निदेशालय मुख्यालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि निर्धारित समय पर अपने कार्यालयों में आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम आयोजित करें ।

2 प्रभारी अधिकारी, आई टी सेल को निदेशालय की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने हेतु ।

3. वनस्पति संरक्षण सलाहकार के सूचनार्थ उनके प्रधान निजी सचिव को ।

शपथ

हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शान्ति, समाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं।

PLEDGE

We, the people of India, having abiding faith in our country's tradition of non-violence and tolerance, hereby solemnly affirm to oppose with our strength, all forms of terrorism and violence. We pledge to uphold and promote peace, social harmony, and understanding among all fellow human beings and fight the forces of disruption threatening human lives and values.